



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1085 ]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 4, 2003/अग्रहायण 13, 1925

No. 1085 ]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 4, 2003/AGRAHAYANA 13, 1925

श्रम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2003

का.आ. 1393(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खण्ड 3(ii) दिनांक 14 फरवरी, 2003 में प्रकाशित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की स्थायी समिति के गठन से संबंधित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है :

उक्त अधिसूचना में "धारा 8 के खण्ड (क) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त" शीर्षक के तहत क्रमांक संख्या-1 के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

अपर सचिव,  
श्रम मंत्रालय  
भारत सरकार, नई दिल्ली।

[फ. सं. यू-16012/4/2002-एस एस-I]

डी. एस. पूनिया, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF LABOUR

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2003

S.O. 1393(E).—In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour dated the 14th February, 2003 published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3(ii); regarding the constitution of the Standing Committee of the Employees' State Insurance Corporation.

In the said notification under the heading "Appointed by the Central Government under clause (a) of Section 8" against Serial No. 1, the following entries shall be inserted namely :—

Additional Secretary,  
Ministry of Labour  
Government of India, New Delhi.

[F. No. U-16012/4/2002-SS-I]

D. S. POONIA, Jt. Secy.